

HCL INFOSYSTEMS LTD.

Corporate Office: A-11, Sector 3, NOIDA 201 301, U.P., India

Tel: +91 120 2520977, 2526518, 2526519 Fax: +91 120 2523791

Registered Office: 806 Siddharth, 96, Nehru Place, New Delhi- 110019. India.

Corporate Identity Number - L72200DL1986PLC023955

www.hclinfosystems.in

www.hcl.com

30th August, 2025

To

The General Manager Department of Corporate Relations BSE Limited Sir Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street Fort Mumbai 400001	The Vice President Listing Department The National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza Bandra Kurla Complex Bandra (East) Mumbai 400051
--	---

Sub: Submission of newspaper advertisement as per Regulation 47 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 - regarding special window for re-lodgement of transfer requests of physical shares

Ref: NSE : HCL-INSYS
BSE (For Physical Form) : 179
BSE (For Demat Form) : 500179

Dear Sir/ Madam,

In accordance with SEBI circular no. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated 2nd July, 2025, a special window has been opened for re-lodgement of transfer deeds which were lodged prior to the deadline of April 01, 2019, and rejected/returned/not attended to due to deficiency in the documents/process/or otherwise.

Pursuant to the aforesaid, the Company has published details of the opening of the window in the 30th August, 2025, newspaper in Business Standard in Hindi and English Edition.

Kindly acknowledge the receipt.

Thanking you

For HCL Infosystems Limited

Twinkle Monga
Company Secretary & Compliance Officer
Membership No: ACS 54882



NOTICE

Sealed quotations are invited from reputed dairies / suppliers for supply of White Butter having 82 % Fat made from Buffalo Milk and Yellow Butter made from Cow Milk having 82 % Fat at our Gokul Dairy, Kolhapur. The approximate required quantity of white butter will be 200 MT and Yellow Butter will be 100 MT and the delivery of the same should be before 30th September 2025. The desired quality norms of white butter and Yellow Butter is uploaded at our website vide Annexure "A" and "B".

Interested parties / dairies are requested to submit their F.O.R. Gokul Dairy, Kolhapur rates for supply of White Butter as well as Cow Butter. The quotation should be submitted on or before 3rd Sept 2025 alongwith EMD of Rs. 10 lac at our Dairy Department, Gokul Shirgaon, Kolhapur upto 4.00 PM.

The sangh reserves right to accept or reject any quotations without giving any reason. The supplier can visit our website: www.gokulmilk.coop and see the Terms and Conditions & Specifications.

MANAGING DIRECTOR

CHAIRMAN

KOLHAPUR ZILLA SAHAKARI DUDH UTPADAK SANGH LTD.

Plot No.B-1, MIDC Gokul shirgaon, Karvir, Kolhapur
Tel. No. 0231-2672311 to 315, Email :- gmdairy@gokulmilk.coop

HCL INFOSYSTEMS LIMITED

CIN: LT7220DL1986PLC023955
Regd. Office: 806, Siddharth, 96, Nehru Place, New Delhi-110 019
Corporate Office: A-11, Sector – 3, Noida - 201301 (U.P)
Tel: + 91-120-2520977, 2526518/519
Email: cosoc@hclinfosystems.com, Website: www.hclinfosystems.in

SPECIAL WINDOW FOR RE-LODGE MENT OF TRANSFER REQUESTS OF PHYSICAL SHARES

Pursuant to Securities and Exchange Board of India ("SEBI") Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/PIR/CI/R/2025/97 dated 2nd July, 2025, all shareholders of HCL Infosystems Limited are hereby informed that a Special Window has been opened for a period of six months, from 7th July, 2025 to 6th January, 2026 to facilitate re-lodgement of transfer requests of physical shares of the Company.

Shareholders note that this facility is available only for re-lodgement of those transfer deeds which were lodged prior to 1st April, 2019 for transfer of physical shares, and were rejected, returned or not attended due to deficiency in the documents/process or otherwise. During this special window period, the shares that are re-lodged for transfer shall be issued in demat mode only and due process for transfer-cum-demat shall be followed.

Shareholders who missed the earlier deadline of 31st March, 2021 are encouraged to use this opportunity by furnishing the necessary documents to the Company's Registrar and Share Transfer Agent, M/s. Alankit Assignments Limited at ra@alankit.com or at 205-208, Anarkali Complex Jhandewalan Extension, New Delhi-110055 or write to the Company at Company's email address cosoc@hclinfosystems.com for any further assistance.

Please note that any transfer requests submitted after 6th January, 2026 will not be accepted by the Company/RTA, unless any extension is granted by SEBI.


This information has also been uploaded on the Company's website at <https://hclinfosystems.in/investors/>.

By Order of the Board of Directors

For HCL Infosystems Limited

Sd/-
Twinkle Monga
Company Secretary and Compliance Officer

Place: Noida
Date: 29th August, 2025
Membership: A54882



VIPUL LIMITED

CIN No. : L55233DL2002PLC167807
Regd. Office: Unit No. 201, C-50, Malviya Nagar, Delhi-110017
Corp. Office: Vipul TechSquare, Golf Course Road, Sector-43, Gurgaon-122009
Phone No.: 0124-4065500, Website: www.vipulgroup.in

NOTICE OF THE 34TH ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING/ OTHER AUDIO-VISUAL MEANS

In continuation to our newspaper advertisement dated August 26, 2025, notice is hereby given that the 34th Annual General Meeting ("AGM") of Vipul Limited ("the Company") will be held on Tuesday, September 23, 2025 at 12:30 P.M. through Video Conferencing / Other Audio Visual Means, in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 (the Act) and Rules made thereunder, read with the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") General Circulars No. 14/2020 dated April 08, 2020, No. 17/2020 dated April 13, 2020, in relation to "Clarification on passing of ordinary and special resolutions by companies under the Companies Act, 2013", No. 20/2020 dated May 05, 2020, No. 02/2021 dated January 13, 2021, No. 21/2021 dated December 14, 2021, No. 02/2022 dated May 05, 2022, No. 10/2022 dated December 28, 2022 and the latest being 09/2023 dated September 25, 2023, in relation to "Clarification on holding of Annual General Meeting ("AGM") through Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means ("OAVM"), issued by the Ministry of Corporate Affairs (collectively referred to as "MCA Circulars"), the Company is convening the 34th Annual General Meeting ("AGM") through Video Conferencing (VC)/Other Audio Visual Means ("OAVM"), without the physical presence of the Members at a common venue. Further, Securities and Exchange Board of India (SEBI), vide its Circulars No. SEBI/HO/CFD/CMD/CI/R/PIR/2020/79 dated May 12, 2020, SEBI/HO/CFD/CMD/CI/R/PIR/2021/111 dated January 15, 2021, SEBI/HO/DDH/PS/PIR/2022/0063 dated May 13, 2022, SEBI/HO/CDR/POD-2/PIR/CI/R/2023/4 dated January 05, 2023 and SEBI/HO/CFD/CFD-POD-2/PIR/CI/R/2023/167 dated October 07, 2023 (SEBI Circulars) and other applicable circulars issued in this regard, has provided relaxations from compliance with certain provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"). In compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 (Act), the Listing Regulations and MCA Circulars, the 34th AGM of the Company is being conducted through VC/OAVM Facility, which does not require physical presence of members at a common venue. The Members can attend and participate in the AGM through VC/OAVM only. The deemed venue for the AGM shall be the Registered Office of the Company i.e. Unit No. 201, C-50, Malviya Nagar, New Delhi-110017.

In compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 (Act), the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (SEBI Listing Regulations), MCA and SEBI Circulars, the 34th AGM of the Company is being conducted through VC/OAVM Facility, which does not require physical presence of members at a common venue. The Members can attend and participate in the AGM through VC/OAVM only. Members attending the meeting through VC / OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

The said Notice along with Annual Report inter alia containing Board's Report, Corporate Governance Report, Auditors' Report and the Audited Financial Statements has been dispatched/circulated to all Members at their registered e-mail IDs, and the same is also available on the website of the Company at www.vipulgroup.in as well as on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL") at www.evoting.nsdl.com.

In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014 and Regulations 44 of the Listing Regulations, Members are provided with the facility to cast their votes on all resolutions set forth in the Notice of the AGM using electronic voting system ("remote e-voting"), provided by NSDL and the business may be transacted through such voting.

The remote e-voting period commences on **Friday, September 19, 2025, 9:00 a.m. and ends on Monday, September 22, 2025, 5:00 p.m.** The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time. Once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently. At the end of the remote e-voting period, the facility shall forthwith be blocked.

The facility for voting through electronic voting system shall be made available during the AGM and only those Members, who will be present in the AGM through VC/OAVM facility and have not cast their vote on the Resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system in the AGM. The Members who have cast their vote by remote e-voting may also attend the AGM, but shall not be entitled to cast their vote again.

The voting rights of Members shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid up equity share capital of the Company as on Tuesday, September 16, 2025 ("cut of date"). Any person, who is a Member of the Company as on the cut-off date is eligible to cast vote on all resolutions set forth in the Notice of AGM using remote e-voting or voting at the AGM.

A person who has acquired shares and become a member of the Company after the dispatch of Notice of AGM and holds shares as of the cut-off date, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in. However, if the person is already registered with NSDL for remote e-voting, then the existing user ID and password can be used. If they have forgotten their password, they can reset their password by using "Forgot User Details/ Password" option available on www.evoting.nsdl.com or contact NSDL at toll free no. : 1800 1020 990 and 1800 224 430.

Detailed procedure for obtaining Login ID/User ID and Password is also provided in the Notice of AGM which is available on the Company's website i.e. www.vipulgroup.in and also on the website of NSDL i.e. www.evoting.nsdl.com.

In case of any queries relating to remote e-voting facility, please refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual for Shareholders available at the Downloads section of www.evoting.nsdl.com or contact NSDL at the toll free no. : 1800 1020 990 and 1800 224 430 or e-mail at evoting@nsdl.co.in.

In case of any grievance(s) in connection with voting by electronic means, the Members may contact to Mr. Shrawan Mangla, T-34, 11th Floor, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi-110020, Email ID: info@masserv.com, Tel No.: 011-26387281-83 or send an e-mail to the Company Secretary at secretarial@vipulgroup.in.

FURTHER NOTICE is hereby given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015; the Register of Members and Transfer Books of the Company shall remain closed from Tuesday, September 16, 2025 to Tuesday, September 23, 2025 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

Generally, a member entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint a proxy to attend and vote on a poll instead of himself and the proxy need not be a member of the Company. Since this AGM is being held through VC / OAVM pursuant to the aforesaid Circulars, physical attendance of members has been dispensed with. Accordingly, the facility for appointment of proxies by the members will not be available for the AGM and hence the Proxy Form and Attendance Slip are not annexed hereto.

All documents referred to in the Notice will also be available electronically for inspection without any fee by the members from the date of circulation of this Notice up to the date of AGM. Members seeking to inspect such documents can send an email to secretarial@vipulgroup.in.

Members seeking any information with regard to the accounts or any matter to be placed at the AGM are requested to write to the Company on or before Tuesday, September 16, 2025 through email on secretarial@vipulgroup.in. The same will be replied by the Company suitably.

Members who have not yet encashed their dividend warrants for the earlier years are requested to write to the Secretarial Department at the Registered or Corporate Office of the Company to claim the dividend. Details of unclaimed dividend as on September 23, 2024 i.e. date of last Annual General Meeting, are available in the investors section of the website of the Company www.vipulgroup.in.

Member may note that during the financial year 2025-26, the Company will be required to transfer to the Investor Education and Protection Fund, final dividend at the Annual General Meeting of the Company held on September 29, 2018 and which is lying unclaimed with the Company for a period of seven years from the date of transfer to the Unpaid Dividend.

All Members are requested to register their e-mail address with the Company. In support of green initiative, the Company will send you the Annual Reports and other relevant information and documents at your registered e-mail address. Registering e-mail address will help in better communication between Company and you as an esteemed stakeholder, and further reduce cost of communication and most importantly save environment by reducing use of paper. Kindly send your details at secretarial@vipulgroup.in or info@masserv.com for registration of e-mail address.

M/s. AVA Associates, through its Partner Mr. Amliabh, Practising Company Secretary (Membership No. A14190, COP No. 5500), has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting process as well as for e-Voting during the AGM, in a fair and transparent manner.

Members who would like to express their views/questions during the meeting need to register themselves as a speaker by sending their request mentioning their name, demat account number/folio number, e-mail ID and mobile number at secretarial@vipulgroup.in on or before Tuesday, September 16, 2025 (6:00 pm IST). Those members who have registered themselves as a speaker will only allowed to express their views/questions during the AGM. The Company reserves the right to restrict the number of speakers attending on the availability of time for the AGM.

The results of the remote e-Voting and votes cast during the AGM shall be declared not later than two working days from the conclusion of the AGM. The results declared, along with Scrutinizer's Report, shall be placed on the Company's website at www.vipulgroup.in and on the website of the NSDL at www.evoting.nsdl.com immediately after their declaration, and communicated to the Stock Exchanges where the Company's Shares are listed viz BSE and NSE and be available on their websites at www.bseindia.com and www.nseindia.com.

For Vipul Limited

Sd/-
Piyyush Baijrai
Company Secretary & Compliance Officer

Place: Gurugram
Date: August 29, 2025

KASHIPUR HOLDINGS LIMITED

CIN : U67120UR1996PLC020938
Reg. Office : A-1, Industrial Area, Bazpur Road, Kashipur- 244713
Distt. Udham Singh Nagar, Uttarakhand, Ph. : 05947-269500, Fax : 05947-275315

NOTICE REGARDING 28TH ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) / OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM)

Notice is hereby given that the 28th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of the Company will be held on Thursday, 25th September, 2025 at 11:00 a.m. (IST) through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM") facility without the physical presence of the Members at a common venue in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder read with General Circular Nos. 14/2020, 17/2020, 20/2020 and 09/2024 dated 8th April, 2020, 13th April, 2020, 5th May, 2020 and 19th September, 2024 respectively ("MCA Circulars") issued by the Ministry of Corporate Affairs.

In accordance with the MCA Circulars, the Notice of the 28th AGM and Annual Report for the Financial Year 2024-25 will be sent only by email to all those Members whose email addresses are registered with the Company or their respective Depository Participant ("DP"). The Notice of the 28th AGM will also be available on Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") website at www.evotingindia.com.

In case you have not registered your email address with the Company/DP, please follow below instructions for registration of email id for obtaining Annual Report for the Financial Year 2024-25:

Physical Holding	Members are requested to register/update their email addresses by providing the necessary details i.e. Folio no., Name of Shareholder, scanned copy of the share certificate (front & Back), PAN (self-attested copy), Aadhar (self-attested copy) at admin@mcsregistrars.com or preeti.choudhary@indiaglycols.com along with the copy of the signed request letter.
Demat Holding	Members are requested to register/update their email addresses with the respective Depository Participant

Members can join and participate in the 28th AGM through VC/OAVM facility only. The instructions for joining the 28th AGM through VC/OAVM and the manner of participation through remote e-voting and e-voting system of CDSL at the 28th AGM shall be provided in the Notice of the 28th AGM. The Notice shall also contain the instruction with regard to login credentials for shareholders holding shares in physical form or in electronic form, who have not registered their e-mail address either with the Company or their respective Depository Participant. Members participating through the VC/OAVM facility shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

In case of any query, a member may send an e-mail to the RTA at admin@mcsregistrars.com or Company at preeti.choudhary@indiaglycols.com.

For Kashipur Holdings Limited

Preeti Choudhary
Company Secretary

Date : 29.08.2025
Place : Noida

KHL FINANCE LIMITED

(formerly known as HWL Traders Limited)

CIN : U64300WB2022PLC255148
Reg. Office : Circular Court, 8 A.J.C. Bose Road, 4th Floor, Room No. 47
Kolkata - 700017, West Bengal, Ph. : 033 22823585

NOTICE REGARDING 3RD ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) / OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM)

Notice is hereby given that the 3rd Annual General Meeting ("AGM") of the Members of the Company will be held on Thursday, 25th September, 2025 at 11:45 a.m. (IST) through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM") facility without the physical presence of the Members at a common venue in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder read with General Circular Nos. 14/2020, 17/2020, 20/2020 and 09/2024 dated 8th April, 2020, 13th April, 2020, 5th May, 2020 and 19th September, 2024 respectively ("MCA Circulars") issued by the Ministry of Corporate Affairs.

In accordance with the MCA Circulars, the Notice of the 3rd AGM and Annual Report for the Financial Year 2024-25 will be sent only by email to all those Members whose email addresses are registered with the Company or their respective Depository Participant ("DP"). The Notice of the 3rd AGM will also be available on Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") website at www.evotingindia.com.

In case you have not registered your email address with the Company/DP, please follow below instructions for registration of email id for obtaining Annual Report for the Financial Year 2024-25:

Physical Holding	Members are requested to register/update their email addresses by providing the necessary details i.e. Folio no., Name of Shareholder, scanned copy of the share certificate (front & Back), PAN (self-attested copy), Aadhar (self-attested copy) at admin@mcsregistrars.com or preeti.choudhary@indiaglycols.com along with the copy of the signed request letter.
Demat Holding	Members are requested to register/update their email addresses with the respective Depository Participant

Members can join and participate in the 3rd AGM through VC/OAVM facility only. The instructions for joining the 3rd AGM through VC/OAVM and the manner of participation through remote e-voting and e-voting system of CDSL at the 3rd AGM shall be provided in the Notice of the 3rd AGM. The Notice shall also contain the instruction with regard to login credentials for shareholders holding shares in physical form or in electronic form, who have not registered their e-mail address either with the Company or their respective Depository Participant. Members participating through the VC/OAVM facility shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

In case of any query, a member may send an e-mail to the RTA at admin@mcsregistrars.com or Company at preeti.choudhary@indiaglycols.com.

For KHL Finance Limited

U.S. Bhartia
Director

Date : 29.08.2025
Place : Noida

HINDUSTAN ADHESIVES LIMITED

CIN: L74899DL1988PLC031191
Regd. Off: B-2/6, SAFARJUNG ENCLAVE, NEW DELHI-110029
Ph: 011-4165047, Fax: 011-26191358
Email: accounts@hindustanadhesives.com, Website: www.bagla-group.com

NOTICE

Notice is hereby given that the Thirty Seventh (37th) Annual General Meeting of the company will be convened on Tuesday, September 30th, 2025 at 5:00 P.M. through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM) facility in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules made thereunder and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular No.09/2024 dated September 19, 2024 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA), Circular dated October 3, 2024 issued by SEBI and such other applicable circulars issued by MCA and SEBI (the Circulars), without the physical presence of the Members at a common venue.

The Notice of the AGM along with Annual Report 2024-2025 will be sent only by electronic mode to those Members whose e-mail addresses are registered with the company/depositories in accordance with the aforesaid MCA Circular and SEBI Circular. Members may note that Notice of the AGM and Annual Report 2024-2025 will also be available on the website of the company www.bagla-group.com and on the stock exchange website of the company at www.bseindia.com. Members can attend and participate in the AGM through the VC/OAVM facility only. The instructions for joining the AGM are provided in the Notice of the AGM. Members attending the meeting through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under section 103 of the Companies Act, 2013.

We urge all the shareholders who have not registered their email addresses with the Company/Depositories to do so forthwith in order to receive all communications promptly without any disruption. Updating of correct email address in the records will help us to communicate with you effectively, especially during this challenging times.

For this purpose, we request shareholders who have not updated their email addresses and Permanent Account Number to kindly update the same by following the below mentioned link and quoting your Folio No./ DP/CientID, Certificate No., PAN, Mobile No., Email ID along with a self-attested copy of your PAN card/ Aadhar/ Valid Passport/ Share Certificate:

Process for member's registration Email ID and Bank details: -

Demat Holdings	The Members holding Equity Shares of the Company in Demat Form and who have not registered their email addresses may temporarily register the same with the Company's Registrar and Share Transfer Agent M/s MUFG Intime India Private Limited, by clicking on the link: https://web.mufglinkintime.co.in/EmailReg/Email_Register.html and follow the registration process as guided therein. In case of any query, a member may send an email to M/s MUFG Intime India Private Limited at delhi@in.mpms.mufg.com . It is clarified that for permanent registration of email address and Bank Details in your Demat account, members are requested to approach the respective Depository Participant ("DP") and follow the process advised by DP. In case of any queries, Members may write to enotices@in.mpms.mufg.com . Alternatively,
Physical Holding	The Members holding equity shares of the company in Physical Form and who have not registered their email addresses and/or Bank Account details may register the same with the Company's Registrar and Share Transfer Agent M/s MUFG Intime India Private Limited, by clicking on the link: https://web.mufglinkintime.co.in/EmailReg/Email_Register.html and follow the registration process as guided therein. In case of any query, a member may send an email to M/s MUFG Intime India Private Limited at delhi@in.mpms.mufg.com .

This is for your information and records.

For any query on the above matter, shareholders of the company are requested to contact: M/s MUFG Intime India Private Limited, Noble Heights, 1st Floor, Plot No NH-2, C-1 Block, LSC, Near Savitri Market, Janakpuri, New delhi-110058
Tel: 011-41410592/93/94, Telefax: 011-41410591, Email: delhi@in.mpms.mufg.com

For and on behalf of

HINDUSTAN ADHESIVES LIMITED

Sd/-
Madhusudan Bagla
(Managing Director)
DIN-01425646

Date: 29/08/2025
Place: New Delhi

GOVERNMENT OF MEGHALAYA

OFFICE OF THE DIRECTOR OF HEALTH SERVICES
MEDICAL EDUCATION & RESEARCH (DME), MEGHALAYA
PASTEUR HILLS, SHILLONG


Email ID: pasteunstituteshi@gmail.com Tel.Ph.No: 0364-2591510/9485106663

NOTICE

This is to inform all concerned stakeholders that the tenders for the *"Supply and Installation of Set of Equipment/Items for Departments of Microbiology, Pathology, Pharmacology & Preventive & Social Medicine as per NMC at Shillong Medical College, Shillong,"* issued under the Directorate of Health Services Medical Education & Research (DME) vide NIT No. DHSME&R/SMC/TENDER/180/2025/938, DHSME&R/SMC/TENDER/180/2025/939, DHSME&R/SMC/TENDER/180/2025/940, DHSME&R/SMC/TENDER/180/2025/941 dated 11/07/2025, stands **cancelled with immediate effect.**

(-Sd/-)
Director of Health Services
Medical Education & Research (DME),
Meghalaya, Pasteur Hills, Shillong

MIPR No.: 1508
Dt. : 29/08/2025



IDBI BANK LTD

Regd. Office - IDBI Tower, WTC
Complex, Cuffe Parade, Mumbai- 400005
CIN- L65190MH2004G0148838

TRANSFER OF STRESSED LOAN EXPOSURE

IDBI Bank Limited (Bank) intends to Transfer the Stressed Loan Exposure of Thampi and Company to the eligible permitted entities (ARCs/ Transferees) on "as is where is", "as is what is", "whatever there is" and "without recourse" basis. Bank is proposing to undertake open Bidding Process on 'all cash' basis to solicit binding bids in the form of irrevocable offers from Transferees(s) in accordance with the regulatory guidelines issued by the RBI and all other relevant applicable laws.

For details please visit Bank's website www.idbibank.in. Click on Quick links> Notices & Tenders. For further details, you may contact at email-assignment@idbi.co.in.

The Bank reserves the right not to go ahead with the proposed transfer at any stage without assigning any reason. Bank reserves the right to accept or reject any bids.

General Manager
Corporate Office
NPA Management Group

Place- Mumbai
Date- 30.08.2025

IN THE COURT OF THE CITY CIVIL AND SESSION JUDGE, AT BANGALORE (CCH-61)

P & SC. No. 597/2021
Between : Smt. L. Nagarajan. ...PETITIONER
V/s Smt. L. Mangala & others Flat No.389 LIG Flats, Hastal, Uttam Nagar, New Delhi-110059
...RESPONDENT

NOTICE TO THE RESPONDENTS

1. Smt. L. Mangala Aged about 58 years S/o. Late. T. K. Lakshmanan
2. Smt. L. Balaji Aged about 58 years S/o. Late. T. K. Lakshmanan Both are residing at Flat No.389 LIG Flats, Hastal, Uttam Nagar, New Delhi-110059
3. Smt. L. Kamala Krishna murthy Aged about 66 years, D/o. Late T. K. Lakshmanan R/o. No.1217, Mayadayan Koll Street, Thenkara! P.O. Via Sholavandan, Dist. Madurai, Tamil Nadu-625207.
Whereas, the above said petitioner has filed this petition for succession certificate in view of the death of brother of the petitioner U/s 372 of Indian Succession Act.
If any person having any objection to the same is directed to appear before this Court on 09/09/25 at 11:00 AM in person or through a Advocate, pleader to answer the question to the same. Failing which the petition will be heard and determined in accordance with law.
Given under my hand and seal of the court, this day of 11/08/2025.

By Order of the Court
Sd/- Senior Sheristadar
City Civil Court, Bengaluru

Varghese Salvan P.S. Advocate
No.58, 1st Floor, Chikkabellandur Camelram Post, Land mark opposite to Kristal Amethyst, Bangalore-560035

AAVAS FINANCIERS LIMITED

(CIN:L65922R2011PLC034297) Regd. & Corp. Office: 201-202, 2nd Floor, South End Square, Mansarovar Industrial Area, Jaipur. 302020

POSSESSION NOTICE

Whereas, The undersigned being the Authorised Officer of **AAVAS FINANCIERS LIMITED** under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred upon me under section 13(12) read with Rule 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued a Demand Notice calling upon the borrowers mentioned herein below to repay the amount mentioned in the respective notice within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrowers having failed to repay the amount, undersigned has taken possession of the properties described herein below in exercise of powers conferred on me under section 13(4) of the said Act read with Rule 9 of the said rules on the dates mentioned as below.

The borrower and Guarantor in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the properties and any dealings with the property will be subject to the charge of the **AAVAS FINANCIERS LIMITED** for an amount mentioned as below and further interest thereon.

Name of the Borrower	Date & Amount of Demand Notice	Description of Property	Date & Type of Possession
VISHWAS DEEP, RITU SHARMA (A/C NO.) LDNS01421-220185258	8 DEC 24 Rs. 2653586/- 5 DEC 24	RESIDENTIAL PROPERTY SITUATED AT FLOOR BUILT UP 3 FLOOR WITH ROOF RIGHTS LHS PLOT NO. 26 A FALLING UNDER KHASRA NO. 220 AND 221 AND PLOT NO. 27 FALLING UNDER KHASRA NO. 208 AND 209 BLOCK A IN AREA OF VILLAGE NAWADA AND COLONY KNOWN AS BHAGWATI GARDEN EXT. BLOCK - A, UTTAM NAGAR, NEW DELHI ADMEASURING 58.50 SQ.YARD	PHYSICAL POSSESSION TAKEN ON 27 AUG 25


Place : Jaipur Date: 30-08-2025

Authorised Officer Aavas Financiers Limited

In fast or fragile markets, insight brings perspective.




Decode market moves with sharp, fast, expert analysis – every day with **Stocks in the News** in Business Standard.

To book your copy, SMS **reachbs to 57575** or email **order@bsmail.in**



Business Standard

Insight Out

 [businessstandard](https://www.businessstandard.com)  [bsindia](https://www.bsindia.com)  [business.standard](https://www.business.standard)

[business-standard.com](https://www.business-standard.com)

एचसीएल इन्फोसिस्टम्स लिमिटेड
सीआईएस: L772200DL1986/P1.C023955
पंजीकृत कार्यालय: 806, सिडार्थ, 96, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019
कॉर्पोरेट कार्यालय: ए-11, सेक्टर-3, गेटवा-201301 (उपर इस्ट)
फोन: +91-120-2520977, 2526181/519
ईमेल: csoc@hclinfosystems.com, वेबसाइट: www.hclinfosystems.in

भौतिक शेयरों के हस्तांतरण अनुमोदित है
पुनः दर्ज करने के लिए विशेष विंडो

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ('सेबी') परियोजना SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 दिनांक 2 जुलाई, 2025 के अनुसार, एचसीएल इन्फोसिस्टम्स लिमिटेड के सभी शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि कंपनी के भौतिक शेयरों के हस्तांतरण अनुमोदित है। पुनः दर्ज करने की सुविधा के लिए 7 जुलाई, 2025 से 6 जनवरी, 2026 तक छह महीने की अवधि के लिए एक विशेष विंडो खोली गई है।

शेयरधारक ध्यान दें कि यह सुविधा केवल उन हस्तांतरण विलेखों को पुनः दाखिल करने के लिए उपलब्ध है जो भौतिक शेयरों के हस्तांतरण के लिए 1 अप्रैल, 2019 से पहले दाखिल किए गए थे और हस्ताविष्टीकरण में कमी या अगुआ के कारण अचल्यकर कर दिए गए, वापस कर दिए गए या उन पर ध्यान नहीं दिया गया। इस विशेष विंडो अवधि के दौरान, हस्तांतरण के लिए पुनः दाखिल किए गए शेयर केवल डीमैट मोड में जारी किए जाएंगे और डीमैट-से हस्तांतरण-सह-डीमैट के लिए उपरि प्रक्रिया को पालन किया जाएगा।

जो शेयरधारक 31 मार्च, 2021 को पूर्व समय सीमा से चुक गए हैं, उन्हें कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रान्स्फर एजेंट, मेसेज ऑनलाइन अकाउंटहोलिंग लिमिटेड को rta@alankit.com पर 20-02-2026, अनामकी कॉलेजस रोड/बंगलावाहन एक्सप्रेसवे, नई दिल्ली- 110055 पर आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करके इस अवसर का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। किसी भी अतिरिक्त सहायता के लिए कंपनी का ईमेल csoc@hclinfosystems.com पर कंपनी को लिखें।

कृपया ध्यान दें कि 6 जनवरी, 2026 के बाद प्रस्तुत किए गए किसी भी हस्तांतरण अनुमोदित शेयरों/आदेशों द्वारा रबीकार नहीं किया जाएगा, जब तक कि सेबी द्वारा कोई विनियम न दिया जाए। यह जानकारी कंपनी की वेबसाइट <http://www.hclinfosystems.in/investors/> पर भी उपलब्ध है।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
एचसीएल इन्फोसिस्टम्स लिमिटेड के लिए
हस्ता-...
अद्वयलक भोगा
कंपनी सचिव एवं
दयानंदन अधिकारी
सचयता: 45-4882

स्थान: पोस्टा
दिनांक: 29 अगस्त, 2025

[illegible][illegible]

सूचना

फॉर्म संख्या,
एन.सि.एल.टी. ५
(नियम ३४ और ३० के अंतर्गत)
राष्ट्रीय कंपनी विधि
न्यायाधिकरण, गुवाहाटी घीठ
के समक्ष कंपनी अधिनियम,
२०१३ के अंतर्गत कंपनी
याचिका संख्या: ३४/२०२३
नई दिल्ली सुराणा याचिकाकारा

—बनारस—

एम/एस आर. एस.
एटरप्राइजेज प्रा. लि. एवं अन्य
प्रतिवादी

सूचना

(कंपनी अधिनियम, २०१३ की
धारा २०२(१) के अंतर्गत)
आदेश दिनांक १९.०८.२०२५
के द्वारा, सभी संबंधित पक्षों को
निर्देश दिया जाता है कि वे
माननीय न्यायाधिकरण के समक्ष
दिनांक २५.०९.२०२५ को प्राप्त:
१०:३० बजे उपस्थित हों।

उपरोक्त नामित आदेश द्वारा
दायक अदेश की सुनवाई हेतु,
तुम्हारे आदेश परित किए जा
सकें कि:-

१. एम/एस आर. एस.
एटरप्राइजेज प्रा. लि. का
न्यायाधिकरण द्वारा कंपनी
अधिनियम, २०१३ की धारा
२०२(१) के अंतर्गत परिसमाप्त
किया जाए और

२. इस विषय में न्यायोचित अन्य
आदेशों परित किए जायें।

दिनांक: २९.०८.२०२५

उपा-जीयक

यह सूचना की तिलक चन्द्र
दास, आवेदक के अधिपुत्र
प्रतिनिधि द्वारा जारी की गई है
और इस समझार पर प्रकाशन
के माध्यम से नौकरी की सेवा
की शायतन द्वारा समर्थित
किया जाएगा।

प्रति:

३(क) श्रीमती बीना देवी सुराणा,
स्व. रूपचंद सुराणा की पत्नी,
निवासी: प्लेट नं. ०७३, जू रोड,
सिल्वर ओक अपार्टमेंट, मकान
नं. १२, माणिक नगर,
गुवाहाटी-७८१००३, जिला—
कामरूप (मेट्रो), असम।

३(ख) श्रीमती रितु जेन
(सुराणा), स्व. रूपचंद सुराणा
की पुत्री एवं श्री मनोज जेन
(सुराणा) की पत्नी, निवासी:
६५, मननरोष गार्डन, नई
दिल्ली-११००१५

३(ग) श्री फंज सुराणा, स्व.
रूपचंद सुराणा के पुत्र, निवासी:
मारुति हाइट अपार्टमेंट, प्लेट नं.
४४, ए.टी. रोड, अरबावाडी,
गुवाहाटी-७८१०१४, जिला—
कामरूप (मेट्रो), असम।

३(घ) श्री पुनित सुराणा, स्व.
रूपचंद सुराणा के पुत्र, निवासी:
पुनर्वार्डिका अपार्टमेंट, प्लेट नं.
२०८ (ए०२०८), धीरपनारा, जिला—
कामरूप (मेट्रो), गुवाहाटी-७८१०२५, असम।

३(ङ) श्री नीरज सुराणा, स्व.
रूपचंद सुराणा के पुत्र, निवासी:
प्लेट नं. ०७३, जू रोड, सिल्वर
ओक अपार्टमेंट, मकान नं. १२,
माणिक नगर, गुवाहाटी-
७८१००३, जिला— कामरूप
(मेट्रो), असम।

प्रतिवादी

सुनैर होटल लिमिटेड
पञ्जाबराईन : द ग्रेगुपॉलिटेड
होटल, बंगला साइड रोड, नई दिल्ली -
110001, ब्राह्म, इन्डिया फोन: से. (91 11) 41515250
फैक्स नंबर (91 11) 41515255

सुनैर होटल लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय :- ए-7,
प्रथम तल, गीताजीवा
एम्कॉलेज, नई दिल्ली-110087
सीआईएन : U74899DL1977PLC008495
वेबसाइट - www.hotelmetdelhi.com
फोन नंबर (91 11) 41515250
ईमेल : sunairhotels@gmail.com

कंपनी की 48वीं वार्षिक आम बैठक के बारे में सूचना

1) सुनैर होटल लिमिटेड के सदस्यों की 48वीं वार्षिक आम बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी" / ऑन लाईन-विड्युओ माध्यमों ("ओवीओएम") के माध्यम से, सोनावार 15 सितंबर, 2022 को, लगभग 11:30 बजे - जून माह, 2022 को, लिंक <https://us05web.zoom.us/j/83715155074?pwd=VlR0aDZkdjR3THZpbnFhYXN0b0R0b0U0> के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

2) कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्राधान्यों के अनुसार, एमसीसी एमएआर परियोजना संख्या 09, 2024, 09/2023, 10/2022, 02/2022, 02/2022, 02/2021, 20/2020, 14/2020 और 17/2020 के साथ पठित, क्रमशः 19 सितंबर, 2024, 25 सितंबर, 2023, 28 सितंबर, 2022, 5 मई, 2022, 13 जनवरी, 2021, 5 मई, 2020, 8 अप्रैल, 2020 और 13 अप्रैल, 2020।

3) उपरोक्त एमसीए परियोजना के अनुपालन में, वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के साथ वार्षिक आम बैठक की सूचना उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पहले की जा चुकी है। सूचना के वितरण के बाद कंपनी निदेशकों को मिल गए हैं। साथ ही, वित्तीय वर्ष 31.03.2025 के वित्तीय विवरणों की मिली प्रतियाँ भी सभी सदस्यों को क्यूबिक्स द्वारा भेजी जा रही हैं, जिन्होंने सीआईए/ओवीओएम द्वारा निर्वाचित वार्षिक आम बैठक का विवरण देखा है। सदस्यगण कृपया ध्यान दें कि सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 कंपनी की वेबसाइट www.hotelmetdelhi.com पर भी उपलब्ध होगी।

4) सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे कंपनी को अपनी ईमेल आईडी/ ईमेल आईडी और फोन नंबर में बदलाव और पते में किसी भी बदलाव के बारे में शीघ्रतापूर्वक सूचित करें और sunairhotels@gmail.com पर ईमेल भेजें और 011-41515250 पर कॉल भी कर सकते हैं।

5) अतिथि वेब www.hotelmetdelhi.com पर पॉसट किए जाएंगे।

6) सदस्यों द्वारा अनुरोध किए जाने पर, बैठक के दौरान कंपनी के ईमेल पते पर ऑनलाइन मतदान किया जाएगा।

स्वागत :- नई दिल्ली
दिनांक :- 01/08/2025

नियंत्रण मंडल के आदेशानुसार
कृत सुनैर होटल लिमिटेड
हस्ता /
नेहा राजपूत
कंपनी निदेशक

When industry giants speak, everyone listens.

In-depth **Q&As** with market mavens — every Monday in Business Standard.

To book your copy, SMS **reachbs** to 57575 or email **order@bsmail.in**

Business Standard
Insight Out

यूनिपार्ट्स इण्डिया लिमिटेड
 पंजीकृत कार्यालय: विप्लवेज हाऊस, ब्लॉक-5, सेक्टर-6 सी 6 व 7, बरसूज, जिला
 नई दिल्ली - 110070
 कॉरपोरेट कार्यालय: प्रथम मंजिल बी 208, ए1 प्लेस ए 2, फेस-11, नोयडा-201305,
 (उत्तर) इण्डिया, यूनायटेड किंगडम
 CIN : L74899DL1994PLC061753
 ईमेल : compliance.officer@unipartsgroup.com; वेबसाइट : www.unipartsgroup.com

विशेष सार्वजनिक, यूनियनसह इण्डिया लिमिटेड ("कम्पनी") को सदस्यां को एलटुदारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी की इक्वीटीसीधारी बाँटिका डेढक ("एलीगुण"), कम्पनी अधिनियम, २०१३ एवं सिस्थोरीटीज एण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इण्डिया (लिस्टिंग) दायरता एवं प्रदीककरण आदेशकाअन्तर्गत), विनियमन, २०१५ ("लिस्टिंग विनियमन") के समी लागू प्राधान्यों एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों समी पठित कारपोरेट कायदा मंत्रालय ("एसीए परियंत्रा") एवं सिस्थोरीटीज एण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इण्डिया ("सेबी परिषद्") द्वारा इस मामले में जारी समी लागू परिषदों के अनुपालन में एजीएम बुलाये की सूचना में निर्दिष्ट व्यवसाय के निष्पादन हेतु विद्युति जांचिका जस्ता है। कम्पनी अधिनियम ("सीटी") अध्या आडियो विबुद्धत माध्यम ("ओवीएफ") द्वारा २०२४, २२ डिसेम्बर, २०२५ को कार्य ३.४० बजे (आईएसटी) में आयोजित की जायेगी। सदस्य एजीएम में केवल बीबी/ओवीएफ की सुविधा से भाग लेकर शामिल हो सकते हैं। बीबी/ओवीएफ के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों को कम्पनी अधिनियम, २०१३ की धारा १०३ के अन्तर्गत कोरम की गणना के उद्देश्य से एजीमा जायेगा।

एजीमा की सूचना एवं वर्ष २०२४-२५ की वार्षिक रिपोर्ट, मार्च ३१, २०२५ को समाप्त वित्तीय वर्ष के वित्तीय कथन को हिस्साकर ("वार्षिक रिपोर्ट"), एसीएम की सूचना सहित, इनके ईमेल पते डिक्टोरीटीज मानिदारा अपलोड करणी के रजिस्ट्रार एवं हस्तांतरण पोर्टल, एसीएमकी इन्टरनेट लिंकवाइल डिक्टोरीटीज "आरटीडी" के पास पंजीकृत नभै है। एजीमा की सूचना एवं वार्षिक रिपोर्ट समी कम्पनी की वेबासाइट https://www.unipartsgroup.com/home/annual_report, स्टॉक एक्सचेंजनों की वेबासाइट i.e. मैक्स लिमिटेड एवं नेशनल स्टाक एक्सचेंज ऑफ इण्डिया लिमिटेड, www.bseindia.com एवं www.nseindia.com पर क्रमशः एवं कम्पनी के आरटीडी की वेबासाइट <https://instavote.linkintime.co.in> पर उपलब्ध है।

एजीएम में शामिल एवं रिपोर्ट इलेक्ट्रानिक जोडियम अध्या एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम द्वारा भाग लेने के अनुसार एजीएम की सूचना में प्रदान किये जायेंगे। ई-वोटिंग द्वारा वोट देने के लिए ऑल्लेख साक्ष्य साक्ष्यको ईमेल द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी। जिन सदस्यों को ईमेल प्राप्त नहीं होता है अध्या शामिल ईमेल पते कम्पनी/आरटीडी/डिक्टोरीटीज मानिदारा पते पर पंजीकृत नभै है। व एजीमा की सूचना में विसी गये निर्देशों का पालन कर लाँगइन साक्ष्य जनरेट कर सकते हैं। उसी लाँगइन साक्ष्य का उपयोग एजीएम में विसी /ओवीएफ के माध्यम से भाग लेने के लिए भी किया जा सकता है।

ईमेल पते पंजीकरण/अपडेडिट का तरीका:

(क) **डिक्टोरीटीज प्रप्रत्र में धारित सदस्यों,** जिन्होंने अपने ईमेल पते डिक्टोरीटीज मानिदारा के पास पंजीकृत/अपडेडिट नही करते हैं ये डिक्टोरीटीज मानिदारा, जिसके पास उनके डिमेट खाते बनाये गये हैं, उनके पास अपने ईमेल पते पंजीकृत/अपडेडिट करणे का अनुबंध है।

(ख) **नौतिक प्रप्रत्र में धारित सदस्यों** से अनुरोध है कि वे अपने ईमेल पते कम्पनी/आरटीडी के पास लिखित में फोलियो नं., शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाण पत्र की स्कैन कॉपी (आगे और पीछे), नैन कार्ड की (वे-अग्रिमामिति स्कैन कॉपी) एवं आधार की (वे-अग्रिमामिति स्कैन कॉपी) को पंजीकृत/अपडेडिट करा दें। जो सदस्य नौतिक प्रप्रत्र में शेयर धारण करते हैं, उपरोक्त दस्तखातो को अपडेड/पंजीकरण कराने के लिए ईमेल पते compliance.officer@unipartsgroup.com अध्या आरटीडी के निम्न पते पर भेज सकते हैं:

मैसर्स एसीएमकी इन्टरनेट इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, ईकाई: युनिपार्ट्स इण्डिया लिमिटेड, नोबल हाईस्टेड, प्रथम मील, ब्लॉक नं ८० प्रप्रत्र २, एलएससी, सी-१ लोक, नजदीकी सालीन्री मार्किट, अजमेरपुरी, नई दिल्ली-११००६८

कम्पनी अधिनियम, २०१३ की धारा १०८ एवं कंपनी प्रश्न (प्रश्नचन एवं प्रश्नान्न) विनियम, २०१४ के नियम २० (स्थापकशिधि) के अनुसार कम्पनी ने एजीएम के दौरान सदस्यों द्वारा इलेक्ट्रानिक माध्यम एवं ई-वोटिंग प्रणाली निर्धारण करने की **कट-ऑफ तिथि सोनावर, सितम्बर १५, २०२५** निर्धारित की है। किसी भी व्यक्ति जिसने कम्पनी के शेरस अग्रिमहिमत नहीं करें और एजीएम की सूचना भेजने के बाद कम्पनी का सदस्य नाहै उसे **कट-ऑफ तिथि** की शेरों शेयर धारण करता हो, लाँगइन साक्ष्य प्राप्त करने के लिए एजीएम की सूचना में दिये गये निर्देशों का पालन कर सकते हैं अध्या delhi@nmpms.mufg.com पर आग्रह भेज सकते हैं।

**कुते यूनिपार्ट्स इण्डिया लिमिटेड
हस्ता/0 -
जितन महावरन
काजू प्रप्रत्र, कम्पनी सचिव एवं अनुपातन अधिकारी**

तिथि : अगस्त २९, २०२५
स्थान : नोयडा, उत्तर प्रदेश

सर्वजनिक सूचना

ICIICI Home Finance

पंजीकृत कार्यालय: आईसीआईसीआई बैंक टावर, बांद्रा-कुर्ली कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400051

कोविड कायदांच अन्वये आईसीआईसीआई च्या एचएफएमसीएल (होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड) द्वितीय तारखे, दिनांक १७/१८, यशोदा अस्पताल के पीछे, शाखा का पता: आईसीआईसीआई हॉम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, द्वितीय तारखे, दिनांक १७/१८, यशोदा अस्पताल के पीछे, कोशाम्बा, गांधीवायद, उत्तर प्रदेश - २०१०१०
निम्नलिखित उपरान्तकींनी ने आईसीआईसीआई हॉम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड ("आईसीआईसीआई एचएफएमसीएल") से प्राप्त रुक्क सुविधा के मूल्बतन और ब्याज के पुनर्मुतागत न घृत्ती की है और रुक्क को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (परिणेत) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उच्च जमाने अनिवार्य ज्ञात पोते पर वसिधियाँ परिसंपत्तिगणों के प्रतिनिधित्वकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा सिंह अधिनियम २००२ को लागू करा जा १३(२) के रहते एक नोटिस जारी किया गया था। हालाँकि, इसकी तामील नहीं की गई और इसलिए उन्हें उच्च सर्वजनिक सूचना के माध्यम से सृष्टि किया जाता है।

क्र. सं.	उधारकर्ता / सह-उधारकर्ता / गारंटर का नाम और पता (रुक्क खाता सं.)	लागू की गई सुरक्षित आस्तिगणें / संपत्ति का पता	नोटिस मेजने की तिथि / नोटिस की तिथि तक रुकया	एनपीए की तिथि
1.	राजन रानी (उधारकर्ता), दीक्षा रानी (सह-उधारकर्ता), सिद्ध कृष् प्रदेवसर (सह-उधारकर्ता), कृष्णा सैनी (सह-उधारकर्ता), संग्राम कुमार (सह-उधारकर्ता), सिद्धार्थ सैनी (सह-उधारकर्ता), मकान सं. ५३७ गरीबी आर्य समाज रोड नजफगढ़ दिल्ली दिल्ली-११००४३, I/LHDKB00001472607.	संपत्ति सं. ५३७, खबरसा सं. ५२ में से पुरानी नजफगढ़ टाउनशिप, दिल्ली के एम.सी.टी. की सीमा के भीतर, अर्ध सामान्य गली के नाम से जानी जाने वाली आवारी, नजफगढ़, दिल्ली-११००४३, क्षेत्रफल ९० वर्ग गज परिधिमा—उत्तर-पूरबी, दक्षिण शी बिशन गुप्ता का मकान, पूरुवे गली, परिवहन: श्री आनंद का मकान	१६-०८-२०२५ ५४,७६,०३६/-	०३/०८/२०२५
2.	राजन रानी (उधारकर्ता), दीक्षा रानी (सह-उधारकर्ता), सिद्ध कृष् प्रदेवसर (सह-उधारकर्ता), कृष्णा सैनी (सह-उधारकर्ता), संग्राम कुमार रानी (सह-उधारकर्ता), सिद्धार्थ सैनी (सह-उधारकर्ता), मकान सं. ५३७ गरीबी आर्य समाज रोड नजफगढ़ दिल्ली दिल्ली-११००४३, LHDKB000001472625.	संपत्ति सं. ५४०, खरसा सं. ५२ में से, नजफगढ़ गांव, दिल्ली की राजस्थान संपत्ति के भीतर, अर्ध सामान्य गली के नाम से जानी जाने वाली आवारी, नजफगढ़, दिल्ली-११००४३, क्षेत्रफल २१५ वर्ग गज (लगभग अलग द्वारा सहित)। सीमा—उत्तर-पूरबी, दक्षिण: संपत्ति सं. ५४१ और बिड़की, पूरुवे संपत्ति सं. ५३९, परिवहन: गली ६ फीट और बिड़की	१६-०८-२०२५ १,११,२०,८३८/-	०३/०८/२०२५
3.	मनोज कुमार (उधारकर्ता), नीतू (सह-उधारकर्ता), २१६ सूर्य नगर चांदपुर रोड, बुलढरवास बुलढरवास उत्तर प्रदेश-२०३००२ / LHMRT00001568282	आवासीय मकान खेत सं. ५३१ का भाग, जुझ भाग, मोहाल्ला राजनगर, मंडू (हरियाणा). परधाना बरत, तहतली और जिला बुलढरवास-उत्तर प्रदेश-२०३००२, क्षेत्रफल १३३.५० वर्ग अर्थात् १११.६८ मीटर। ३ कमरे, स्टोर्ड, शौचालय, न्यानवर और सीढ़ियाँ, सीमा— पूर्व-श्रीमती अघिलेश शर्मा और श्रीमती मालती शर्मा का प्लॉट, ४४ फीट परिधि-रजवाही की दीवार, ४५ फीट उत्तर-डीनार मालिका का प्लॉट, ३४ फीट, दक्षिण-सड़क १८ फीट अर्थात् ५.५३ वर्ग मीटर, २० फीट	०४-०८-२०२५ ३१,३९,०५२/-	०५/०३/२०२५
4.	मनोज सिंह (उधारकर्ता), नीतू (सह-उधारकर्ता), २१६ सूर्य नगर चांदपुर रोड, बुलढरवास बुलढरवास उत्तर प्रदेश-२०३००२ / LHMRT000015683०९	आवासीय मकान खेत सं. ५३१ का भाग, जुझ भाग, मोहाल्ला राजनगर, मंडू (हरियाणा). परधाना बरत, तहतली और जिला बुलढरवास-उत्तर प्रदेश-२०३००२, क्षेत्रफल १३३.५० वर्ग अर्थात् १११.६८ मीटर। ३ कमरे, स्टोर्ड, शौचालय, न्यानवर और सीढ़ियाँ, सीमा— पूर्व-श्रीमती अघिलेश शर्मा और श्रीमती मालती शर्मा का प्लॉट, ४४ फीट परिधि-रजवाही की दीवार, ४५ फीट उत्तर-डीनार मालिका का प्लॉट, ३४ फीट, दक्षिण-सड़क १८ फीट अर्थात् ५.५३ वर्ग मीटर, २० फीट	०४-०८-२०२५ ८५,८२१/-	०५/०३/२०२५
5.	अरविंद कुमार शर्मा (उधारकर्ता), ज्योति शर्मा (सह-उधारकर्ता), २२४ इंदौर कोली मुजफ्फरनगर मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश २५१००१/ LHMRT0000153६३५९	नगरपालिका सं. ३८२/१, इंदौर कोलीनी, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश-२५१००१, प्लॉट का कुल क्षेत्रफल सं. ८५.९३ वर्ग गज, अर्थात् ७१.८४ वर्ग मी. (करबे क्षेत्रफल २४.१५ वर्ग मी.) प्लॉट पर स्थित संरचनाएं, दक्षिण: १२ फीट चौड़ाई, ५७ फीट लंबाई, दक्षिण: पहिरण: मूर्ति द्वारा व्यक्त	१६-०८-२०२५ १६,८३,१८२/-	०३/०८/२०२५
6.	गांधी मोहम्मद (उधारकर्ता), आसा मोहम्मद (सह-उधारकर्ता), जिशाण (सह-उधारकर्ता), अमदनगर कुकरा सदर जोली रोड, मुजफ्फरनगर मुजफ्फरनगर मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश-२५१००१/ LHMRT0000153६३५९	खरसा सं. ३३१/१ (मुद्रनगर), गाँव कुकडा बहार हर, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश-२५१००१, प्लॉट का कुल क्षेत्रफल २०९.३६ वर्ग गज, अर्थात् १७४.९२ वर्ग मीटर, सीमा— उत्तर-रोड का प्लॉट ५७ फीट ६ इंच, दक्षिण: जीत सिंह का प्लॉट ५७ फीट ६ इंच, पूरुवे हाजी रज्जाका का प्लॉट ३१ फीट ६ इंच, पहिरण: ३४ फीट / १५ फीट चौड़ी सड़क	१६-०८-२०२५ ४९,५४,३७२/-	०३/०८/२०२५
7.	गांधी मोहम्मद (उधारकर्ता), आसा मोहम्मद (सह-उधारकर्ता), जिशाण (सह-उधारकर्ता), अमदनगर कुकरा सदर जोली रोड, मुजफ्फरनगर मुजफ्फरनगर मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश-२५१००१/ LHMRT00001५१९४७.	खरसा सं. ३३१/१ (मुद्रनगर), गाँव कुकडा बहार हर, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश-२५१००१, प्लॉट का कुल क्षेत्रफल २०९.३६ वर्ग गज, अर्थात् १७४.९२ वर्ग मीटर, सीमा— उत्तर-रोड का प्लॉट ५७ फीट ६ इंच, दक्षिण: जीत सिंह का प्लॉट ५७ फीट ६ इंच, पूरुवे हाजी रज्जाका का प्लॉट ३१ फीट ६ इंच, पहिरण: ३४ फीट / १५ फीट चौड़ी सड़क	१६-०८-२०२५ १९,९४,२९४/-	०३/०८/२०२५
8.	रवि दत्त (उधारकर्ता), कविता कुमारी (सह-उधारकर्ता), मकान सं. १४५ बी पीकेट दिशाराग गाँव झिलसिट, दिलिशार नागा, पठेट, दिलिशार नागा, दिल्ली, दिल्ली-११००९६ LHDWJ00001६४५०९६	संपत्ति सं. ४८, पूर्वी पल्ली मौजिल (किता पत्र के अधिकार के), पीकट-०७, सेक्टर-२२, सोहिणी आवासीय योजना, सोहिणी, दिल्ली-११००८६, क्षेत्रफल ९० वर्ग मी. उत्तर-सड़क १८ मीटर, दक्षिण: प्लॉट सं. ४७; पूरुवे दक्षिण लेन ४ मीटर, पहिरण: प्रवेश द्वार	१६-०८-२०२५ ७४,०१,२२५/-	०८/०८/२०२५
9.	रवि दत्त (उधारकर्ता), कविता कुमारी (सह-उधारकर्ता), मकान सं. १४५ बी पीकेट दिशाराग गाँव झिलसिट, दिलिशार नागा, पठेट, दिशाराग नागा, दिल्ली, दिल्ली-११००९६ LHDWJ00001६४५१०७	संपत्ति सं. ४८, पूर्वी पल्ली मौजिल (किता पत्र के अधिकार के), पीकट-०७, सेक्टर-२२, सोहिणी आवासीय योजना, सोहिणी, दिल्ली-११००८६, क्षेत्रफल ९० वर्ग मी. उत्तर-सड़क १८ मीटर, दक्षिण: प्लॉट सं. ४७; पूरुवे दक्षिण लेन ४ मीटर, पहिरण: प्रवेश द्वार	१६-०८-२०२५ २,२२,३१५/-	०८/०८/२०२५

नोटिस की प्रतिस्थापित सर्विस हेतु कदम उठाए जा रहे हैं। उपरोक्त उधारकर्ताओं और/या उनके गारंटर्स (लागू अनुसार) को इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों की अवधि के भीतर बकाया मुरतान करने की सहादत दी जाती है। अन्यथा वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार आगे कदम उठाए जाएंगे।

In fast or fragile markets, insight brings perspective.

Decode market moves
with sharp, fast,
expert analysis —
every day with
Stocks in the News
in Business Standard.

To book your copy,
SMS **reachbs** to
57575 or email
order@bsmail.in

Business Standard

Insight Out

आर्द सी आर्द सी आर्द होम फार्मनेंस लिमिटेड